

Chapter- +

Gravitation

गुरुत्वाकर्षण

प्रश्नावली

प्रश्न 1. निम्नलिखित के उत्तर दीजिए

- (a) आप किसी आवेश का वैद्युत बलों से परिरक्षण उस आवेश को किसी खोखले चालक के भीतर रखकर कर सकते हैं। क्या आप किसी पिण्ड का परिरक्षण, निकट में रखे पदार्थ के गुरुत्वाकार प्रभाव से, उसे खोखले गोले में रखकर अथवा किसी अन्य साधनों द्वारा कर सकते हैं?
- (b) यृथी के परितः परिक्रमण करने वाले छोटे अन्तरिक्षयान में बैठा कोई अन्तरिक्ष यात्री गुरुत्व बल का संसूचन नहीं कर सकता। यदि यृथी के परितः परिक्रमण करने वाला अन्तरिक्ष स्टेशन आकार में बड़ा है, तब क्या वह गुरुत्व बल के संसूचन की आशा कर सकता है?
- (c) यदि आप पृथ्वी पर सूर्य के कारण गुरुत्वाकार बल की तुलना पृथ्वी पर चन्द्रमा के कारण गुरुत्व बल से करें, तो आप यह पाएंगे कि सूर्य का खिंचाव चन्द्रमा के खिंचाव की तुलना में अधिक है (इसकी जांच आप स्वयं आगामी अध्यासों में दिए गए आंकड़ों की सहायता से कर सकते हैं।) तथापि चन्द्रमा के खिंचाव का ज्वारीय प्रभाव सूर्य के ज्वारीय प्रभाव से अधिक है। क्यों?

- हल**
- (a) नहीं, किसी पिण्ड का परिरक्षण, निकट में रखे पदार्थ के गुरुत्वाकार प्रभाव से उस खोखले गोले में रखकर नहीं किया जा सकता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है जबकि वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है।
 - (b) हाँ, अन्तरिक्ष यात्री गुरुत्व बल के संसूचन की आशा कर सकता है यदि अन्तरिक्षयान आकार में बड़ा है क्योंकि इस स्थिति में अन्तरिक्षयान के गुरुत्व का परिमाण अनुभव तथा मापने योग्य हो जाएगा।
 - (c) ज्वारीय प्रभाव गुरुत्वाकर्षण के व्युक्तम् वर्ग नियम द्वारा नहीं बताया जाता है लेकिन यह दूरी के तृतीय घात के व्युक्तमानुपाती द्वारा बताया जा सकता है। चन्द्रमा तथा पृथ्वी के बीच दूरी पृथ्वी तथा सूर्य के बीच दूरी की तुलना में बहुत कम है अतः चन्द्रमा के खिंचाव का ज्वारीय प्रभाव सूर्य के ज्वारीय प्रभाव की तुलना में अधिक है।

प्रश्न 2. सही विकल्प का चयन कीजिए

- (a) बढ़ती तुंगता के साथ गुरुत्वाकार प्रभाव बढ़ता/घटता है।
- (b) बढ़ती गहराई के साथ (पृथ्वी को एकसमान घनत्व को गोला मानकर) गुरुत्वाकार प्रभाव बढ़ता/घटता है।

- (c) गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के द्रव्यमान/पिण्ड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता।
 (d) पृथ्वी के केन्द्र से r_2 तथा r_1 दूरियों के दो बिन्दुओं के बीच स्थितिज ऊर्जा-अन्तर के लिए सूत्र $-GMm\left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1}\right)$, सूत्र $mg(r_2 - r_1)$ से अधिक/कम यथार्थ है।

हल (a) पृथ्वी की सतह से h ऊँचाई पर गुरुत्वीय त्वरण

$$g' = \frac{g}{\left(1 + \frac{h}{R_e}\right)^2}$$

जहाँ, R_e पृथ्वी की त्रिज्या है।

अतः ऊँचाई बढ़ने के साथ गुरुत्वीय त्वरण घटता जाता है।

- (b) पृथ्वी तल से h गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण

$$g' = g \left(1 - \frac{h}{R_e}\right)$$

अतः गहराई बढ़ने के साथ गुरुत्वीय त्वरण घट जाता है।

- (c) गुरुत्वीय त्वरण द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है।
 (d) पृथ्वी के केन्द्र से r_2 तथा r_1 दूरियों पर स्थित दो बिन्दुओं के बीच स्थितिज ऊर्जा-अन्तर के लिए सूत्र $-GMm\left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1}\right)$ सूत्र $mg(r_2 - r_1)$ से अधिक यथार्थ है।

प्रश्न 3. मान लीजिए एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के परितः पृथ्वी की तुलना में दोगुनी चाल से गति करता है, तब पृथ्वी की कक्षा की तुलना में इसका कक्षीय आमाप क्या है?

किसी ग्रह की कक्षीय गति के लिए आवश्यक अभिकेन्द्र बल, ग्रह तथा सूर्य के बीच गुरुत्वीय बल से प्राप्त होता है इसलिए अभिकेन्द्र बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल को बराबर रखकर त्रिज्या को ज्ञात किया जा सकता है।

हल माना M_s = सूर्य का द्रव्यमान

M_e = पृथ्वी का द्रव्यमान

r = पृथ्वी की कक्षीय त्रिज्या

r' = ग्रह की कक्षीय त्रिज्या

ω = पृथ्वी का कोणीय वेग

ω' = ग्रह का कोणीय वेग

पृथ्वी के धूमने के लिए आवश्यक अभिकेन्द्र बल, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच लगे गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है।

अर्थात्

$$\frac{M_e v^2}{r} = \frac{GM_s M_e}{r^2}$$

या

$$v^2 = \frac{GM_s}{r}$$

लेकिन रेखीय वेग $v = r\omega$

$$\therefore (r\omega)^2 = \frac{GM_s}{r}$$

$$\text{या} \quad \omega^2 = \frac{GM_s}{r^3} \quad \dots(i)$$

इसी प्रकार, अन्य ग्रह के लिए,

$$\omega'^2 = \frac{GM_s}{r'^3} \quad \dots(ii)$$

समी (i) को समी (ii) से भाग देने पर,

$$\therefore \frac{\omega^2}{\omega'^2} = \frac{r'^3}{r^3}$$

$$\text{या} \quad r'^3 = \left(\frac{\omega}{\omega'}\right)^2 r^3$$

$$\text{या} \quad r' = \left(\frac{\omega}{\omega'}\right)^{2/3} r \quad \dots(iii)$$

लेकिन ग्रह सूर्य के परितः पृथ्वी की तुलना में दोगुनी चाल से गति करता है

$$\omega' = 2\omega$$

समी (iii) से,

$$r' = \left(\frac{\omega}{2\omega}\right)^{2/3} r$$

$$\therefore r' = \frac{r}{(2)^{2/3}} = \frac{r}{(4)^{1/3}} \\ = \frac{r}{1.49} = 0.63r$$

अतः पृथ्वी की कक्षा की तुलना में ग्रह का कक्षीय आमाप 0.63 गुना कम है।

प्रश्न 4. बृहस्पति के एक उपग्रह, आयो (Io), की कक्षीय अवधि 1.769 दिन तथा कक्षा की त्रिज्या 4.22×10^8 m है। यह दर्शाइए कि बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1/1000 गुना है।

हल दिया है, बृहस्पति की कक्षीय अवधि

$$T = 1.769 \text{ दिन} \\ = (1.769 \times 24 \times 60 \times 60) \text{ s} \\ = 1.528 \times 10^5 \text{ s}$$

$$\text{कक्षा की त्रिज्या } (r) = 4.22 \times 10^8 \text{ m}$$

$$G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2/\text{kg}^2$$

$$\text{सूर्य का द्रव्यमान } M_s = 2 \times 10^{30} \text{ kg}$$

माना बृहस्पति का द्रव्यमान M_J है।

उपग्रह की कक्षीय गति के लिए आवश्यक अभिकेन्द्र बल

= ग्रह तथा उपग्रह के बीच गुरुत्वाय बल

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{GM_J m}{r^2}$$

या

$$v^2 = \frac{GM_J}{r}$$

$$(rv)^2 = \frac{GM_J}{r}$$

($\because v = r\omega$)

\therefore

$$\omega^2 = \frac{GM_J}{r^3}$$

लेकिन $\omega = \frac{2\pi}{T}$, जहाँ T आवर्तकाल है।

$$\therefore \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 = \frac{GM_J}{r^3}$$

या

$$M_J = \frac{4\pi^2 r^3}{T^2 G}$$

$$= \frac{4 \times (3.14)^2 \times (4.22 \times 10^8)^3}{(1.528 \times 10^6)^2 \times 6.67 \times 10^{-11}}$$

$$= 1.9 \times 10^{27} \text{ kg}$$

$$= 2 \times 10^{27} \text{ kg}$$

अब,

$$\frac{M_J}{M_s} = \frac{2 \times 10^{27}}{2 \times 10^{30}} = \frac{1}{1000}$$

या

$$M_J = \frac{1}{1000} M_s$$

अतः बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का $\frac{1}{1000}$ गुना है।

प्रश्न 5. मान लीजिए कि हमारी आकाशगंगा में एक सौर द्रव्यमान के 2.5×10^{11} तारे हैं। मंदाकिनीय केन्द्र से 50,000 ly दूरी पर स्थित कोई तारा अपनी एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लेगा? आकाशगंगा का व्यास 10^6 ly लीजिए।

हल हमारी आकाश गंगा में तारों की संख्या (N) = 2.5×10^{11}

प्रत्येक तारे का द्रव्यमान = सौर द्रव्यमान

$$= 2 \times 10^{30} \text{ kg}$$

एक आकाशगंगा में तारों का कुल द्रव्यमान = $N \times m$

$$= 2.5 \times 10^{11} \times 2 \times 10^{30}$$

$$= 5.0 \times 10^{41} \text{ kg}$$

तारे की त्रिज्या $r = 50000 \text{ ly}$

लेकिन 1 प्रकाश वर्ष (ly) = $9.46 \times 10^{15} \text{ m}$

$$\therefore r = 50000 \times 9.46 \times 10^{15} \text{ m}$$

आकाशगंगा का व्यास = 10^5 ly

क्षीय गति के लिए आवश्यक अभिकेन्द्र बल गुरुत्वाकर्षण बल से ग्राप्त होता है।

\therefore अभिकेन्द्र बल = गुरुत्वाकर्षण बल

$$\therefore \frac{mv^2}{r} = \frac{GMm}{r^2}$$

$$\text{या } v^2 = \frac{GM}{r}$$

$$(rv)^2 = \frac{GM}{r} \quad (\because v = r\omega)$$

$$\text{या } \omega^2 = \frac{GM}{r^3}$$

$$\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 = \frac{GM}{r^3} \quad \left(\because \omega = \frac{2\pi}{T}\right)$$

$$\text{या } T^2 = \frac{4\pi^2 r^3}{GM}$$

$$T = \sqrt{\frac{4 \times (3.14)^2 \times (5 \times 9.46 \times 10^{15})^3}{6.67 \times 10^{-11} \times 5 \times 10^{41}}}$$

$$= \sqrt{12527.5 \times 10^{28}}$$

$$= 111.93 \times 10^{14} \text{ s}$$

$$= \frac{111.93 \times 10^{14}}{365 \times 24 \times 3600} \text{ yr}$$

$$= 3.55 \times 10^8 \text{ yr}$$

प्रश्न 6. सही विकल्प का चयन कीजिए

- यदि स्थितिज ऊर्जा का शून्य अनन्त पर है, तो कक्षा में परिक्रमा करते किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा इसकी गतिज/स्थितिज ऊर्जा का ऋणात्मक है।
- कक्षा में परिक्रमा करने वाले किसी उपग्रह को पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव से बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा समान ऊँचाई (जितनी उपग्रह की है) के किसी स्थिर पिण्ड को पृथ्वी के प्रभाव से बाहर प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा से अधिक / कम होती है।

हल (a) उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा $U = \frac{-GMm}{r}$

$$\text{उपग्रह की गतिज ऊर्जा } K = \frac{GMm}{2r}$$

$$\text{कुल ऊर्जा } E = U + K = \frac{-GMm}{r} + \frac{GMm}{2r} = \frac{-GMm}{2r} = -K$$

अर्थात् गतिज ऊर्जा का ऋणात्मक है।

- (b) कक्षा में परिक्रमा करने वाले किसी उपग्रह को पृथ्वी के गुरुत्वायी बल प्रभाव से बाहर निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा समान ऊँचाई के किसी स्थिर पिण्ड को पृथ्वी के प्रभाव से बाहर प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा से कम होती है क्योंकि उपग्रह की इस स्थिति में पृथ्वी का गुरुत्वायी प्रभाव इसके अधिकन्द्र बल से सन्तुलित होता है इसलिए कार्य केवल उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है (गुरुत्व बल के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया जाता है।)

प्रश्न 7. क्या किसी पिण्ड की पृथ्वी से पलायन चाल (a) पिण्ड के द्रव्यमान (b) प्रक्षेपण बिन्दु की अवस्थिति, (c) प्रक्षेपण की दिशा, (d) पिण्ड के प्रमोचन की अवस्थिति पर निर्भर करती है?

$$\text{हल पलायन वेग, } v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2gR}$$

$$\text{पृथ्वी तल से } r \text{ दूरी पर पलायन वेग, } v_e = \sqrt{\frac{2GM}{r}}$$

जहाँ, M तथा R पृथ्वी का द्रव्यमान तथा त्रिज्या है।

- (a) नहीं, पलायन वेग पिण्ड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है।
 (b) हाँ, पलायन वेग प्रक्षेपण बिन्दु की स्थिति पर निर्भर करता है
 पलायन वेग $v_e = \sqrt{2gR}$
 क्योंकि g का मान भिन्न अक्षांशों तथा ऊँचाई पर भिन्न-भिन्न होता है।
 (c) नहीं, पलायन वेग प्रक्षेपण की दिशा पर निर्भर नहीं करता है।
 (d) हाँ, पलायन वेग पिण्ड के प्रमोचन की अवस्थिति की ऊँचाई पर निर्भर करता है।

प्रश्न 8. कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा अत्यधिक दीर्घवृत्तीय कक्षा में कर रहा है। क्या अपनी कक्षा में धूमकेतु की शुरू से अन्त तक (a) रैखिक चाल, (b) कोणीय चाल, (c) कोणीय संवेग, (d) गतिज ऊर्जा, (e) स्थितिज ऊर्जा (f) कुल ऊर्जा नियत रहती है। सूर्य के अति निकट आने पर धूमकेतु के द्रव्यमान में ह्वास को नगण्य मानिए।

- हल** (a) संवेग संरक्षण के नियमानुसार, $L = mvr = \text{नियतांक}$ अतः धूमकेतु जब सूर्य के निकट आता है तो उसकी गति बढ़ जाती है तथा जब सूर्य से दूर जाता है तो उसी गति मन्द हो जाती है।
 (b) रैखिक चाल परिवर्तित होने के कारण कोणीय चाल भी परिवर्तित होती है।
 (c) धूमकेतु पर कोई बाह्य बल आधूर्ण कार्य नहीं करता है। अतः कोणीय संवेग के संरक्षण के अनुसार, धूमकेतु का कोणीय संवेग नियत रहता है।
 (d) धूमकेतु की गतिज ऊर्जा $= \frac{1}{2}mv^2$

जैसे-जैसे धूमकेतु का वेग परिवर्तित होगा गतिज ऊर्जा भी परिवर्तित होती है अतः धूमकेतु की गतिज ऊर्जा नियत नहीं है।


(e) गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होने के साथ इसकी स्थितिज ऊर्जा भी परिवर्तित हो जाती है।

(f) धूमकेतु की कुल ऊर्जा नियत रहती है।

प्रश्न 9. निम्नलिखित में से कौन-से लक्षण अन्तरिक्ष में अन्तरिक्ष यात्री के लिए दुखःदायी हो सकते हैं? (a) पैरों में सूजन, (b) चेहरे पर सूजन, (c) सिरदर्द, (d) दिक्कविन्यास समस्या।

हल (b), (c), (d) अर्थात् चेहरे पर सूजन, सिरदर्द तथा दिक्कविन्यास समस्या लक्षण अन्तरिक्ष में अन्तरिक्ष यात्री के लिए दुखःदायी होते हैं। अन्तरिक्ष में अन्तरिक्ष यात्री का आंतरिक दाब बाह्य दाब से अधिक हो जाता है जिसके कारण रक्त चाप बढ़ जाता है और यात्री को इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

प्रश्न 10. एकसमान द्रव्यमान घनत्व के अर्धगोलीय खोलों द्वारा परिभाषित ढोल के पृष्ठ के केन्द्र पर गुरुत्वायी तीव्रता की दिशा (देखिए चित्र) (i) a, (ii) b, (iii) c, (iv) 0 में किस तीर द्वारा दर्शाई जाएगी?



हल गोलीय कोश के अन्दर सभी बिन्दुओं पर गुरुत्वायी विभव समान रहता है।

∴ गोलीय कोश के अन्दर गुरुत्वायी विभव

$$\frac{dV}{dr} = \frac{d}{dr} (\text{नियतांक}) = 0$$

गुरुत्वायी तीव्रता गुरुत्व विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। अतः गुरुत्वायी तीव्रता गोलीय कोश के भीतर सभी बिन्दुओं शून्य होगी। तथा कोश के भीतर सभी स्थानों पर गुरुत्व बल समान रहता है। यदि ऊपरी अर्द्ध गोलीय कोश हटा दिया जाये तब कण जो केन्द्र O पर स्थित है कार्य करने वाले गुरुत्वायी बल की दिशा नीचे की ओर होगी। अर्थात् गुरुत्वायी तीव्रता की दिशा नीचे की ओर होगी।

प्रश्न 11. उपरोक्त समस्या में किसी यादृच्छिक बिन्दु P पर गुरुत्वायी तीव्रता किस तीर (i) d, (ii) e, (iii) f, (iv) g द्वारा व्यक्त की जाएगी?

हल बिन्दु P अर्द्धगोलीय कोश की सतह पर रहता है तथा गुरुत्वायी तीव्रता P बिन्दु पर नीचे की तरफ कार्य करती है।

प्रश्न 12. पृथ्वी से किसी रॉकेट को सूर्य की ओर दागा गया है। पृथ्वी के केन्द्र से किस दूरी पर रॉकेट पर गुरुत्वाकर्षण बल शून्य है? सूर्य का द्रव्यमान $= 2 \times 10^{30}$ kg, पृथ्वी का द्रव्यमान $= 6.0 \times 10^{24}$ kg। अन्य ग्रहों आदि के प्रभावों की उपेक्षा कीजिए।


(कक्षीय त्रिज्या $= 1.5 \times 10^{11}$ m)

हल सूर्य का द्रव्यमान (M_s) = 2×10^{30} kg

पृथ्वी का द्रव्यमान (M_e) = 6.0×10^{24} kg

कक्षीय त्रिज्या (r) = 1.5×10^{11} m

माना पृथ्वी के केन्द्र से x दूरी पर कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल शून्य है तथा रॉकेट का द्रव्यमान m है।



सूर्य तथा रॉकेट के बीच गुरुत्वाकर्षण बल = रॉकेट तथा पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल

$$\frac{GM_s m}{(r-x)^2} = \frac{GM_e m}{x^2}$$

या $\frac{M_s}{(r-x)^2} = \frac{M_e}{x^2}$

या $\frac{2 \times 10^{30}}{(r-x)^2} = \frac{6 \times 10^{24}}{x^2}$

या $\frac{(r-x)^2}{x^2} = \frac{2 \times 10^{30}}{6 \times 10^{24}}$

$$\frac{(r-x)^2}{x^2} = \frac{10^6}{3}$$

दोनों ओर का वर्गमूल करने पर,

या $\frac{r-x}{x} = \frac{10^3}{\sqrt{3}}$

$$\begin{aligned} \frac{r}{x} - 1 &= \frac{10^3 \times \sqrt{3}}{3} \\ &= \frac{1732 \times 1000}{3} \end{aligned}$$

या $\frac{r}{x} = 1 + \frac{1732}{3}$

$$\frac{r}{x} = \frac{1735}{3}$$

या $x = \frac{3}{1735} \times r$

$$= \frac{3 \times 1.5 \times 10^{11}}{1735}$$

$$= 2.594 \times 10^8 \text{ m}$$

$$x = 2.6 \times 10^8 \text{ m}$$

प्रश्न 13. आप सूर्य को कैसे तोलेंगे अर्थात् उसके द्रव्यमान का आकलन कैसे करेंगे? सूर्य के परितः पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1.5×10^8 km है।

हल सूर्य के परितः पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या

$$r = 1.5 \times 10^8 \text{ km} = 1.5 \times 10^{11} \text{ m}$$

सूर्य के परितः पृथ्वी की आवर्तकाल = 1 वर्ष

$$= 365 \text{ दिन}$$

$$= 365 \times 24 \times 60 \times 60 \text{ s}$$

कक्षीय गति के लिए आवश्यक अभिकेन्द्र बल, गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है।

\therefore अभिकेन्द्र बल = गुरुत्वाकर्षण बल

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{GM_s m}{r^2}$$

$$v^2 = \frac{GM_s}{r}$$

$$(rv)^2 = \frac{GM_s}{r} \quad (\because v = r\omega)$$

या

$$\omega^2 = \frac{GM_s}{r^3}$$

लेकिन

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 = \frac{GM_s}{r^3}$$

या

$$M_s = \frac{4\pi^2 r^3}{GT^2} = \frac{4 \times (3.14)^2 \times (1.5 \times 10^{11})^3}{6.67 \times 10^{-11} (365 \times 24 \times 60 \times 60)^2}$$

$$\approx 2 \times 10^{30} \text{ kg}$$

प्रश्न 14. एक शनि वर्ष एक पृथ्वी वर्ष का 29.5 गुना है। यदि पृथ्वी सूर्य से 1.5×10^8 km दूरी पर है, तब शनि सूर्य से कितनी दूरी पर है?

हल पृथ्वी वर्ष $T_e = 1 \text{ yr}$

$$\text{शनि वर्ष } T_s = 29.5 \text{ yr}$$

$$\text{पृथ्वी की त्रिज्या } (R_e) = 1.50 \times 10^8 \text{ km}$$

$$\text{शनि की त्रिज्या } (R_s) = ?$$

कैप्लर के नियमानुसार

$$T^2 \propto R^3$$

$$\frac{T_e^2}{T_s^2} = \frac{R_e^3}{R_s^3}$$

$$\left(\frac{1}{29.5}\right)^2 = \frac{(1.50 \times 10^8)^3}{R_s^3}$$

$$R_s^3 = (29.5)^2 \times (1.50 \times 10^8)^3$$

$$= 2.947 \times 10^{27} \text{ km}^3$$

$$R_s = 2.937 \times 10^{27}$$

$$= 1.43 \times 10^9 \text{ km} = 1.43 \times 10^{12} \text{ m}$$

प्रश्न 15. पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी वस्तु का भार 63 N है। पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊँचाई पर पृथ्वी के कारण इस वस्तु पर गुरुत्वाय बल कितना है?

गुरुत्वाय बल की गणना करने लिए हम गुरुत्व के कारण h ऊँचाई पर त्वरण की गणना

$$\text{करेंगे जो निम्न सूत्र से प्राप्त होगा } g' = \frac{g}{\left(1 + \frac{h}{R_e}\right)^2}$$

$$\text{हल दिया है, } h = \frac{R_e}{2}$$

h ऊँचाई पर गुरुत्वाय त्वरण

$$g' = \frac{g}{\left(1 + \frac{h}{R_e}\right)^2} = \frac{g}{\left(1 + \frac{R_e/2}{R_e}\right)^2}$$

$$= \frac{g}{\left(1 + \frac{1}{2}\right)^2} = \frac{g}{(3/2)^2} = \frac{4}{9}$$
...(i)

पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार

$$w = mg = 63 \text{ N} \quad \dots \text{(ii)}$$

$h = R_e / 2$ ऊँचाई पर वस्तु का भार

$$w' = mg' = \frac{4}{9} mg \quad \dots \text{(iii)}$$

समी (ii) से,

$$w' = \frac{4}{9} \times 63 w' = 28 \text{ N}$$

प्रश्न 16. यह मानते हुए कि पृथ्वी एकसमान धनत्य का एक गोला है तथा इसके पृष्ठ पर किसी वस्तु का भार 250 N है, यह ज्ञात कीजिए कि पृथ्वी के केन्द्र की ओर आधी दूरी पर इस वस्तु का भार क्या होगा?

वस्तु का पृथ्वी के केन्द्र पर भार ज्ञात करने के लिए हम h गहराई पर गुरुत्वाय त्वरण का मान ज्ञात करते हैं। पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर गुरुत्वाय त्वरण निम्न सूत्र प्राप्त होता है।

$$g' = g \left(1 - \frac{h}{R_e}\right)$$

हल पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार

$$w = mg = 250 \text{ N}$$

... (i)

पृथ्वी की सतह से h ऊँचाई पर गुरुत्वाकर्षण बल

$$g' = g \left(1 - \frac{h}{R_e}\right)$$

यहाँ,

$$h = R_e / 2$$

$$\begin{aligned} \therefore g' &= g \left(1 - \frac{R_e / 2}{R_e}\right) \\ &= g \left(1 - \frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{g}{2} \end{aligned}$$

$\therefore h$ ऊँचाई पर वस्तु का भार

$$\begin{aligned} w' &= mg \\ &= \frac{mg}{2} \end{aligned}$$

समी (i) से,

$$\begin{aligned} w' &= \frac{250}{2} \\ &= 125 \text{ N} \end{aligned}$$

\therefore वस्तु का भार 125 N होगा।

प्रश्न 17. पृथ्वी के ग्रुष्ट से ऊर्ध्वाधरत: ऊपर की ओर कोई रॉकेट 5 km/s की चाल से दागा जाता है। पृथ्वी पर वापस लौटने से पूर्व यह रॉकेट पृथ्वी से कितनी दूरी तक जाएगा? पृथ्वी का द्रव्यमान $= 6.0 \times 10^{24} \text{ kg}$; पृथ्वी की ग्राविटेशनल त्रिज्या $= 6.4 \times 10^6 \text{ मी}$ तथा $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$.

हल माना m द्रव्यमान का रॉकेट v वेग से ऊर्ध्वाधरत: ऊपर को दागा जाता है तथा यह पृथ्वी से h ऊँचाई पर पहुँचता है।

$$\text{रॉकेट की गतिज ऊर्जा} = \frac{1}{2}mv^2$$

पृथ्वी की सतह पर रॉकेट की स्थितिज ऊर्जा

$$U_0 = -\frac{GM_e m}{R_e}$$

पृथ्वी की सतह से h ऊँचाई पर रॉकेट की स्थितिज ऊर्जा

$$U_h = -\frac{GM_e m}{(R_e + h)}$$

\therefore स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि (ΔU) $= U_h - U_0$

$$\begin{aligned}
 \Delta U &= -\frac{GM_e m}{(R_e + h)} - \left(-\frac{GM_e m}{R_e} \right) \\
 &= GM_e m \left[\frac{1}{R_e} - \frac{1}{(R_e + h)} \right] \\
 &= GM_e m \left[\frac{R_e + h - R_e}{R_e(R_e + h)} \right] \\
 &= GM_e m \times \frac{h}{R_e(R_e + h)}
 \end{aligned}$$

लेकिन

$$\begin{aligned}
 GM_e &= g R_e^2 \\
 \therefore \Delta U &= g R_e^2 \times m \times \frac{h}{R_e(R_e + h)} \\
 &= \frac{mgh}{R_e(R_e + h)} = \frac{mg h}{\left(1 + \frac{h}{R_e}\right)}
 \end{aligned}$$

ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार,

रॉकेट की गतिज ऊर्जा = रिथितिज ऊर्जा में वृद्धि

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{mgh}{\left(1 + \frac{h}{R_e}\right)}$$

$$v^2 \left(1 + \frac{h}{R_e}\right) = 2gh$$

$$v^2 + \frac{v^2 h}{R_e} = 2gh$$

या

$$v^2 R_e + v^2 h = 2gh R_e$$

$$v^2 R_e = h (2g R_e - v^2)$$

या

$$h = \left(\frac{v^2 R_e}{2g R_e - v^2} \right)$$

यहाँ, रॉकेट की चाल $v = 5 \text{ km/s} = 5 \times 10^3 \text{ m/s}$

पृथ्वी का द्रव्यमान $M_e = 6.0 \times 10^{24} \text{ kg}$

पृथ्वी की त्रिज्या $R_e = 6.4 \times 10^6 \text{ m}$,

गुरुत्वाकर्षण बल $g = 9.8 \text{ m/s}^2$

\therefore

$$\begin{aligned}
 h &= \frac{(5 \times 10^3)^2 \times 6.4 \times 10^6}{(2 \times 9.8 \times 6.4 \times 10^6) - (5 \times 10^3)^2} \\
 &= \frac{25 \times 6.4 \times 10^{12}}{9.8 \times 12.8 \times 10^6 - 25 \times 10^6}
 \end{aligned}$$

$$= 1.6 \times 10^6 \text{ m}$$

$$= 1600 \times 10^3 \text{ m} = 1600 \text{ km}$$

\therefore पृथ्वी के केन्द्र से दूरी $r = R_e + h$

$$= 6.4 \times 10^6 + 1.6 \times 10^6$$

$$= 8.0 \times 10^6 \text{ m}$$

प्रश्न 18. पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी प्रक्षेपण की पलायन चाल 11.2 km/s है। किसी वस्तु को इस चाल की तीन गुनी चाल से प्रक्षेपित किया जाता है। पृथ्वी से अत्यधिक दूर जाने पर इस वस्तु की चाल क्या होगी? सूर्य ग्रहों की उपस्थिति की उपेक्षा कर्मजिए।

हल दिया है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग, $(v_e) = 11.2 \text{ km/s}$

वस्तु के प्रक्षेपण की चाल (v) $= 3v_e = 3 \times 11.2 = 33.6 \text{ km/h}$

माना प्रक्षेपण के समय तथा पृथ्वी से अत्यधिक दूर जाने पर वस्तु की चाल क्रमशः v तथा v' तथा वस्तु का द्रव्यमान m है।

प्रारम्भ में वस्तु की गतिज ऊर्जा $= \frac{1}{2}mv^2$

प्रारम्भ में वस्तु की गुरुत्वायी स्थितिज ऊर्जा $= -\frac{GM_e m}{R_e}$

जहाँ, M_e तथा R_e पृथ्वी का द्रव्यमान तथा त्रिज्या हैं।

पृथ्वी से अत्यधिक दूर जाने पर, वस्तु की गतिज ऊर्जा $= \frac{1}{2}mv'^2$

वस्तु की गुरुत्वायी स्थितिज ऊर्जा $= 0$ (शून्य)

ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार,

प्रक्षेपण बिन्दु पर कुल ऊर्जा $=$ पृथ्वी के पृष्ठ से अत्यधिक दूर जाने पर कुल ऊर्जा

$$\frac{1}{2}mv^2 + \left(-\frac{GM_e m}{R_e} \right) = \frac{1}{2}mv'^2 + 0$$

या $\frac{1}{2}mv'^2 = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GM_e m}{R_e}$... (i)

यदि v_e पलायन वेग है, तब $\frac{1}{2}mv_e^2 = \frac{GM_e m}{R_e}$... (ii)

सभी (ii) से यह मान सभी (i) में रखने पर,

$$\frac{1}{2}mv'^2 = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_e^2$$

या $v'^2 = v^2 - v_e^2$
 $= (3v_e)^2 - v_e^2$ $(\because v = 3v_e)$
 $= 8v_e^2$

या

$$\begin{aligned}v' &= 2\sqrt{2}v_0 \\&= 2 \times 1.414 \times 11.2 \text{ km/s} \\&= 31.68 \text{ km/s}\end{aligned}$$

\therefore पृथ्वी से अत्यधिक दूर जाने पर वस्तु की चाल = 31.68 km/s

प्रश्न 19. कोई उपग्रह पृथ्वी के पृष्ठ से 400 km ऊँचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। इस उपग्रह को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकालने में कितनी ऊर्जा खर्च होगी? उपग्रह का द्रव्यमान = 200 kg; पृथ्वी का द्रव्यमान = 6.0×10^{24} kg; पृथ्वी की त्रिज्या = 6.4×10^6 m तथा $G = 6.67 \times 10^{-11}$ N-m²/kg²।

हल दिया है, पृथ्वी की सतह से उपग्रह की ऊँचाई

$$h = 400 \text{ km} = 0.4 \times 10^6 \text{ m}$$

उपग्रह का द्रव्यमान (m) = 200 kg

पृथ्वी की त्रिज्या (R_e) = 6.4×10^6 m

पृथ्वी का द्रव्यमान (M_e) = 6.0×10^{24} kg

गुरुत्वाकर्षण नियतांक (G) = 6.67×10^{-11} N-m²/kg²

उपग्रह को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर भेजने में आवश्यक ऊर्जा उपग्रह की बन्धन ऊर्जा कहलाती है।

$$\begin{aligned}\text{उपग्रह की बन्धन ऊर्जा} &= \frac{GM_e m}{2(R_e + h)} \\&= \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 6.0 \times 10^{24} \times 200}{2(6.4 \times 10^6 + 0.4 \times 10^6)} \\&= \frac{6.67 \times 12 \times 10^{15}}{2 \times 6.8 \times 10^6} \\&= 5.885 \times 10^9 \text{ J} = 5.9 \times 10^9 \text{ J}\end{aligned}$$

प्रश्न 20. दो तारे, जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान (2×10^{30} kg) के बराबर है, एक दूसरे की ओर सम्मुख टक्कर के लिए आ रहे हैं। जब वे 10^9 km दूरी पर हैं, तब इनकी चाल उपेक्षणीय है। ये तारे किस चाल से टकराएं? प्रत्येक तारे की त्रिज्या 10^4 km है। यह मानिए कि टकराने के पूर्व तक तारों में कोई विरुद्धारण नहीं होता (G के ज्ञात मान का उपयोग कीजिए)

हल प्रत्येक तारे का द्रव्यमान (m) = 2×10^{30} kg

दोनों तारों के बीच की दूरी (r) = 10^9 km = 10^{12} m


प्रत्येक तारे की त्रिज्या (R) = 10^4 km = 10^7 m

प्रारम्भ में प्रत्येक तारे की चाल जब वे एक दूसरे से अधिक दूरी पर है (v_i) = 0

\therefore प्रारम्भ में तारे की गतिज ऊर्जा = 0

प्रारम्भ में, तारे की गतिज ऊर्जा = $-\frac{Gmm}{r} - \frac{Gm^2}{r}$

माना तारे एक दूसरे से v' चाल से संघटट करते हैं



जब तारे एक-दूसरे संघटट करके तब उनके बीच के दूरी

$$r' = 2R$$

$$\therefore \text{तारों की गतिज ऊर्जा} = \frac{1}{2}mv'^2 + \frac{1}{2}mv'^2 = mv'^2$$

$$\therefore \text{तारों की स्थितिज ऊर्जा} = -\frac{Gmm}{r'} = -\frac{Gm^2}{2R}$$

ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार,

प्रारम्भ में तारों की कुल ऊर्जा = तारों की अन्तिम ऊर्जा

$$0 + \left(-\frac{Gm^2}{r} \right) = mv'^2 + \left(-\frac{Gm^2}{2R} \right)$$

या

$$mv'^2 = Gm^2 \left[\frac{1}{2R} - \frac{1}{r} \right]$$

$$v'^2 = Gm \left[\frac{1}{2R} - \frac{1}{r} \right]$$

$$= 6.67 \times 10^{-11} \times 2 \times 10^{30} \left[\frac{1}{2 \times 10^7} - \frac{1}{10^{12}} \right]$$

$$= 13.34 \times 10^{19} [5 \times 10^{-8} - 10^{-12}]$$

$$= 13.34 \times 10^{19} \times 4.999 \times 10^{-8}$$

$$= 6.6699 \times 10^{12}$$

$$\text{या } v' = \sqrt{6.6699 \times 10^{12}} = 2.583 \times 10^6 \text{ m/s}$$


$$v' = 2.6 \times 10^6 \text{ m/s}$$

प्रश्न 21. दो भारी गोले जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 100 kg त्रिज्या 0.10 m है। किसी क्षैतिज मेज पर एक दूसरे से 1.0 m दूरी पर स्थित है। दोनों गोलों के केन्द्रों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिन्दु पर गुरुत्वीय बल तथा विप्रव व्य क्या है? क्या इस बिन्दु पर रखा कोई पिण्ड सन्तुलन में होगा? यदि हाँ, तब यह सन्तुलन स्थायी होगा अथवा अस्थायी?

हल दिया है, प्रत्येक गोले का द्रव्यमान $m = 100\text{ kg}$

प्रत्येक गोले की विज्या $R = 0.10\text{ m}$

गोलों के बीच की दूरी $r = 1.0\text{ m}$



प्रत्येक गोले की मध्य बिन्दु से दूरी

$$d = \frac{r}{2} = \frac{1}{2}\text{ m}$$

माना कम द्रव्यमान m' की वस्तु AB के मध्य बिन्दु पर रखी गयी है।

गोले A के कारण m' पर लगने वाला बल

$$F_A = \frac{Gmm'}{d^2}, \quad (\text{OA के अनुदिश})$$

गोले B के कारण द्रव्यमान m' पर लगने वाला बल

$$F_B = \frac{Gmm'}{d^2}, \quad (\text{OB के अनुदिश})$$

\therefore मध्य बिन्दु O पर रखे द्रव्यमान m' पर लगा कुल बल

$$F = F_A + F_B = \frac{Gmm'}{d^2} + \left(-\frac{Gmm'}{d^2} \right)$$

$$F = 0$$

\therefore मध्य बिन्दु O पर गुरुत्वाकर्षण बल शून्य है

गोले A के कारण मध्यबिन्दु O पर गुरुत्वीय विभव

$$V_A = -\frac{Gm}{d}$$

इसी प्रकार, गोले B के कारण मध्यबिन्दु O पर गुरुत्वाकर्षण विभव

$$V_B = -\frac{Gm}{d}$$

\therefore मध्यबिन्दु O पर परिणामी गुरुत्वीय विभव

$$\begin{aligned} V &= V_A + V_B = \left(-\frac{Gm}{d} \right) + \left(-\frac{Gm}{d} \right) = -2 \times \frac{GM}{d} \\ &= -\frac{2 \times 6.67 \times 10^{-11} \times 100}{1/2} \\ &= -26.68 \times 10^{-9} = -2.7 \times 10^{-8} \text{ J/kg} \end{aligned}$$

क्योंकि मध्य बिन्दु पर गुरुत्वीय विभव शून्य नहीं है अतः सन्तुलन अस्थायी होगा।